



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1937 (श0)

(सं0 पटना 187) पटना, बृहस्पतिवार, 3 मार्च 2016

वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

अधिसूचना

11 जनवरी 2016

सं0 SFC/23/1/15-Extention-196-वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-12530 दिनांक 13.12.2013 द्वारा किया गया था। आयोग का कार्यकाल दिनांक 31.03.2015 तक निर्धारित है।

आयोग द्वारा उक्त अधिसूचना में अंकित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आलोक में दिनांक 31.03.2015 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना था। परंतु कतिपय कारणों से आयोग द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा सका।

आयोग के अनुरोध के आलोक में आयोग का कार्यकाल विभागीय अधिसूचना संख्या-3298 दिनांक 30.03.2015 द्वारा दिनांक 31.12.2015 तक विस्तारित किया गया था।

पुनः आयोग के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अंकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु आयोग का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 187-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>